



## भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन

यह एडिटोरियल 01/03/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "[E-evidence, new criminal law, its implementation](#)" लेख पर आधारित है। इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) 1872 को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA)—जहाँ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर बल दिया गया है—के संदर्भ में भारत में आपराधिक कानूनों से संबंधित प्रावधानों में किये गए विभिन्न परिवर्तनों के बारे में चर्चा की गई है।

### प्रलिस के लिये:

[भारतीय न्याय संहिता, 2023](#), [IPC \(भारतीय दंड संहिता\)](#), [दंड प्रक्रिया संहिता \(CrPC\)](#), [भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872](#), [व्यभिचार](#), [राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड](#), [राजद्रोह](#), [संसदीय स्थायी समिति](#), [संगठित अपराध](#), [महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध](#)।

### मेन्स के लिये:

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का विकास, भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित वर्तमान मुद्दे।

तीन नए अधिनियमों में आपराधिक कानून—[भारतीय न्याय संहिता \(भारतीय दंड संहिता-IPC\)](#) को प्रतिस्थापित करने के लिये, [भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता \(दंड प्रक्रिया संहिता-CrPC\)](#) को प्रतिस्थापित करने के लिये) और [भारतीय साक्ष्य अधिनियम \(भारतीय साक्ष्य अधिनियम-IEA 1872\)](#) को प्रतिस्थापित करने के लिये) 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे।

जहाँ तक नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) का प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में मामूली बदलाव किये गए हैं। हालाँकि, BSA में द्वितीयक साक्ष्य का दायरा थोड़ा विस्तृत किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित प्रावधानों में कुछ बदलाव किये गए हैं।

### नोट

### आपराधिक न्याय प्रणाली का विकास:

- भारत के पूरे इतिहास में अलग-अलग शासकों के अधीन अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न आपराधिक न्याय प्रणालियाँ विकसित हुईं और देशकाल में उनका प्रभुत्व रहा।
  - ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया जो अभी हाल तक प्रायः अपरिवर्तित बना रहा था।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत की आधिकारिक दंड संहिता है जिसे [चारटर अधिनियम, 1833](#) के तहत वर्ष 1834 में स्थापित पहले [वधिआयोग](#) की अनुशंसा के अनुरूप वर्ष 1860 में तैयार किया गया था और यह 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ।
- IEA, जिसे मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था, भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों और संबद्ध मुद्दों का एक समुच्चय प्रदान करता है।
  - इसी क्रम में, CrPC भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिये प्रक्रियाएँ प्रदान करता है। यह वर्ष 1973 में अधिनियमित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ।
- भारतीय संसद ने दिसंबर 2023 में भारतीय न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिये भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) अधिनियम 2023 के रूप में तीन महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किये।

# Changes proposed in criminal laws

Union home minister Amit Shah has introduced three key bills in the Lok Sabha that, if approved, will overhaul India's criminal justice system. A look at key aspects of the bills



## THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS) BILL, 2023 Proposed to replace **Indian Penal Code (IPC), 1860**

The IPC, which was framed by the British, is the official criminal code of India that lists various crimes and its punishments

### KEY TAKEAWAYS

- Sedition deleted, but another provision **penalising secessionism**, separatism, rebellion and acts against sovereignty, unity and integrity of India brought in
- Provision of **death penalty** for gang rape of minors and for mob lynching
- **Community service introduced** as one of the punishments for the first time



## THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 Proposed to replace **Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973**

The CrPC lays down the procedure for investigation, arrest, court hearing, bail and punishment in criminal cases

### KEY TAKEAWAYS

- **Time-bound investigation**, trial and judgment within 30 days of the completion of arguments
- **Video-recording** of the statement of sexual assault victims to be made mandatory
- New provision for **attachment of property and proceeds** of crime



## THE BHARATIYA SAKSHYA BILL, 2023 Proposed to replace the **Indian Evidence Act, 1872**

The IEA applies to all judicial proceedings in the country and defines the particulars of evidence produced and admissible in courts

### KEY TAKEAWAYS

- **Documents to also include** electronic or digital records, e-mails, server logs, computers, smart phones, laptops, SMS, websites, locational evidence, mails, messages on devices
- **Digitisation of all records** including case diary, FIR, charge sheet and judgement
- Electronic or digital record shall have the same legal effect, validity and enforceability as paper records

//

## भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 के वभिन्न प्रावधान क्या हैं?

- BSA 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) 1872 के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है। **इसमें शामिल हैं:**
  - **स्वीकार्य या ग्राह्य साक्ष्य (Admissible Evidence):** कानूनी कार्यवाही में शामिल पक्षकार केवल ग्राह्य साक्ष्य ही प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्राह्य साक्ष्य को या तो 'विविध तथ्य' (facts in issue) या 'सुसंगत तथ्य' (relevant facts) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
    - विविध तथ्य ऐसे किसी तथ्य को संदर्भित करते हैं जो कानूनी कार्यवाही में दावा किये गए या अस्वीकार किये गए किसी भी अधिकार, दायित्व या अशक्तता के अस्तित्व, प्रकृति या सीमा को निर्धारित करते हैं।



- सुसंगत तथ्य वे तथ्य हैं जो किसी दफि गए मामले में प्रासंगिक हैं। IEA दो प्रकार के साक्ष्य प्रदान करता है- दस्तावेज़ी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य (documentary and oral evidence)।
- **सिद्ध तथ्य (Proven Fact):** एक तथ्य को तब 'सिद्ध' माना जाता है, जब प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय यह मानता है कि यह या तो: (i) अस्तित्व में है, या (ii) इसके अस्तित्व की इतनी संभावना है कि एक वविकशील व्यक्ता को ऐसे कार्य करना चाहिये जैसे कि यह मामले के परिदृश्यों में अस्तित्व में है।
- **पुलिस संसवीकृता या इकबालिया बयान (Police Confessions):** किसी पुलिस अधिकारी के सामने की गई कोई भी संसवीकृता/इकबालिया बयान/कबूलनामा अग्राह्य या असवीकार्य है। पुलिस हिरासत या अभरिक्षा (custody) में की गई संसवीकृता भी असवीकार्य है, जब तक कि उसे मजसिद्रेट द्वारा दर्ज नहीं किया जाए।
  - हालाँकि, यदि अभरिक्षा में किसी आरोपी से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी सूचना का पता चलता है तो उस सूचना को स्वीकार किया जा सकता है यदि वह स्पष्ट रूप से पता चले तथ्य से संबंधित हो।
- **BSA 2023 में लाये गए प्रमुख बदलाव:**
  - **दस्तावेज़ी साक्ष्य:** IEA के तहत दस्तावेज़ में लेख, मानचित्र और कैरिकेचर शामिल होते हैं। BSA में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी दस्तावेज़ के रूप में शामिल किया गया है। दस्तावेज़ी साक्ष्य में प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य शामिल हैं।
    - प्राथमिक साक्ष्य में मूल दस्तावेज़ और उसके अंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं।
    - द्वितीयक साक्ष्य में ऐसे दस्तावेज़ और मौखिक वविरण शामिल होते हैं जो मूल दस्तावेज़ की सामग्री को साबति कर सकते हैं।
    - BSA नमिनलखिति को शामिल करने के लिये द्वितीयक साक्ष्य का वसितार करता है: (i) मौखिक और लखिति स्वीकृता/स्वीकारोक्ता; और (ii) उस व्यक्ता की गवाही जसिने दस्तावेज़ की जाँच की है और दस्तावेज़ों की जाँच करने में कुशल है।
  - **मौखिक साक्ष्य:** IEA के तहत मौखिक साक्ष्य में जाँच के अधीन किसी तथ्य के संबंध में साक्ष्यों द्वारा अदालतों के समक्ष दिये गए बयान शामिल हैं। BSA मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की भी अनुमति देता है।
    - इससे साक्ष्यों, आरोपी व्यक्तियों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने की अनुमति मिलि जाएगी।
  - **साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की ग्राह्यता:** दस्तावेज़ी साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जानकारी शामिल होती है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में मुद्रति या संग्रहति की गई है।
    - ऐसी जानकारी कंप्यूटर या वभिनिन कंप्यूटरों के संयोजन द्वारा संग्रहीत या संसाधति की जा सकती है।
  - **संयुक्त वचिरण (Joint Trials):** संयुक्त वचिरण से तात्पर्य एक ही अपराध के लिये एक से अधिक व्यक्तियों के वचिरण या ट्रायल से है। IEA के अनुसार, संयुक्त वचिरण में किसी एक आरोपी द्वारा की गई संसवीकृता जो अन्य आरोपियों को भी प्रभावति करती है, साबति हो जाती है तो इसे दोनों के वरिद्ध संसवीकृता माना जाएगा।
    - BSA इस प्रावधान में एक स्पष्टीकरण शामिल करता है जसिमें कहा गया है कि कई व्यक्तियों के वचिरण में, किसी एक आरोपी के फरार रहने या गरिफ्तारी वारंट का जवाब नहीं देने की स्थिति में भी इसे संयुक्त वचिरण ही माना जाएगा।

## BSA 2023 द्वारा लाये गए वभिनिन महत्त्वपूर्ण बदलाव कौन-से हैं?

- **'दस्तावेज़' की सटीक परिभाषा:** 'दस्तावेज़' (जसिमें इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं) की परिभाषा में दृष्टांत से स्पष्ट किया गया है कि ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सर्वर लॉग, कंप्यूटर या लैपटॉप या स्मार्टफोन पर मौजूद दस्तावेज़, संदेश, वेबसाइट, लोकेशन संबंधी साक्ष्य और डिजिटल उपकरणों पर संग्रहति वॉइस मेल मैसेज दस्तावेज़ हैं।
- **प्राथमिक (इलेक्ट्रॉनिक) साक्ष्य के संबंध में स्पष्टता:** इसमें कहा गया है कि जहाँ किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को एक ही समय इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहति किया जाता है और दूसरे को प्रेषति या प्रसारति या स्थानांतरति किया जाता है, वहाँ प्रत्येक संग्रहति रिकॉर्डिंग प्राथमिक साक्ष्य होगी।
  - इससे जाँच एजेंसियों को किसी साइबर अपराधी की अभयिज्यता (culpability) तय करने में मदद मिलि सकती है, भले ही वह आरोपों से इनकार करने के लिये अपने मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट कर दे, क्योंकि साक्ष्य को इसके महत्त्व में किसी कमी के बिना अन्य स्रोतों से संग्रहति किया जा सकता है।
- **IT एक्ट, 2000 से तादात्म्य:** इसकी धारा 63, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता से संबंधित है, में बेहतर दृश्यता के लिये 'सेमीकंडक्टर मेमोरी' और 'कोई भी संचार उपकरण' जैसे शब्द शामिल हैं।
  - हालाँकि, इससे प्रावधान का प्रभाव नहीं बदलता है क्योंकि **IT अधिनियम, 2000** में दी गई 'इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म' की परिभाषा में 'कंप्यूटर मेमोरी' में उत्पन्न, प्रेषति, प्राप्त या संग्रहति जानकारी शामिल है।

## BSA 2023 के प्रावधानों के संबंध में वभिनिन चतिाँ क्या हैं?

- **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित मुद्दे:**
  - **इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़:**
    - वर्ष 2014 में **सर्वोच्च न्यायालय** ने यह माना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड छेड़छाड़ और हेरफेर के प्रति संवेदनशील हैं। उसने कहा है कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना, यदि पूरा वचिरण इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साक्ष्य पर आधारति हो, तो इससे न्याय हास्यास्पद बन सकता है।
  - **ई-रिकॉर्ड की ग्राह्यता में अस्पष्टता:**
    - BSA इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता का उपबंध करता है और न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों पर वचिर करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक (Examiner of Electronic Evidence) से परामर्श करने की वविक शक्ता सौपता है।
    - BSA दस्तावेज़ की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को शामिल करता है। यह IEA के इस प्रावधान को बरकरार रखता है कि सभी दस्तावेज़ प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होने चाहिये, जब तक कि वे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में योग्य न हों (यदि मूल साक्ष्य नष्ट हो गया हो या उस व्यक्ता के पास हो जसिके वरिद्ध दस्तावेज़ सिद्ध किया जाना है।

- **पुलिस अभरिक्षा में प्राप्त जानकारी सदिध-योग्य हो सकती है:** IEA में प्रावधान है कि यदि पुलिस अभरिक्षा में किसी आरोपी से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता लगाया जाता है तो उस जानकारी को स्वीकार किया जा सकता है यदि वह स्पष्ट रूप से पता लगाये गए तथ्य से संबंधित हो। BSA में इस प्रावधान को बनाये रखा गया है।
  - सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न वधि आयोग की रिपोर्टों ने इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि संभव है कि अभरिक्षा में तथ्यों का पता लगाने के लिये अभयुक्तों पर दबाव बनाया गया हो या उन्हें यातना दी गई हो।
- **पुलिस अभरिक्षा के अंदर और बाहर अभयुक्त के बीच भेदभाव:** IEA के तहत, पुलिस अभरिक्षा में किसी अभयुक्त से प्राप्त जानकारी ग्राह्य या स्वीकार्य है यदि यह पता लगाये गए तथ्य से संबंधित है, जबकि समान जानकारी ग्राह्य नहीं है यदि यह पुलिस अभरिक्षा के बाहर किसी अभयुक्त से प्राप्त हुई हो। BSA ने भी यह अंतर बरकरार रखा है।

## BSA को अधिक प्रभावशील बनाने के लिये कौन-से कदम उठाये जाने की आवश्यकता है?

- **गृह मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट:** गृह मामलों की स्थायी समिति (2023) ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की प्रामाणिकता एवं अखंडता की सुरक्षा के महत्त्व पर ध्यान दिया क्योंकि उनमें छेड़छाड़ की संभावना होती है।
  - इसने अनुशांसा की कि जाँच के दौरान साक्ष्य के रूप में संग्रहित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड को अभरिक्षा की उचित शृंखला के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रबंधित एवं संसाधित किया जाए।
- **कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किये गए दिशानिर्देश:** वर्ष 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की खोज और जबती के दौरान न्यूनतम सुरक्षा उपायों के लिये दिशानिर्देश पेश किये। इनमें शामिल हैं:
  - यह सुनिश्चित करना कि एक योग्य फोरेंसिक परीक्षक खोज दल के साथ रहे,
  - जाँच अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की खोज और जबती के दौरान जब्त किये गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग से नषिद्ध करना,
  - किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस (जैसे पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव) को जब्त करना और उन्हें 'फैराडे बैग' में पैक करना।
    - फैराडे बैग विद्युत-चुंबकीय संकेतों के संचरण को अवरुद्ध करते हैं, जो डिवाइस में संग्रहित डेटा को अवरुद्ध या नष्ट कर सकते हैं।
- **यूरोपीय संघ (EU) के निरदेशात्मक प्रस्ताव को शामिल करना:** यूरोपीय संघ में आपराधिक कार्यवाही में साक्ष्य एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पारस्परिक ग्राह्यता के लिये निरदेशात्मक प्रस्ताव के मसौदे (Draft Directive Proposal for a Mutual Admissibility of Evidence and Electronic Evidence) का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के उपयोग के लिये समान न्यूनतम मानक स्थापित करना है। इसके प्रमुख सदिधांतों में शामिल हैं:
  - इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के उपयोग को केवल तभी अनिवार्य करना जब इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हों कि इसमें हेरफेर या जालसाजी नहीं की गई है,
  - यह सुनिश्चित करना कि प्रस्तुत करने के समय से लेकर अभरिक्षा की शृंखला तक साक्ष्य किसी हेरफेर के विरुद्ध पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं, और
  - आरोपी के अनुरोध पर आईटी विशेषज्ञों की भागीदारी की आवश्यकता।
- **वधि आयोग 2003 की अनुशांसाएँ:**
  - पुलिस अभरिक्षा में किसी भी धमकी, बलप्रयोग, हिसा या यातना का उपयोग कर अभयुक्त से के पाए गए तथ्य सदिध-योग्य नहीं होने चाहिये।
  - तथ्य सुसंगत होने चाहिये, चाहे वे पुलिस अभरिक्षा में पाए गए हों या अभरिक्षा से बाहर।
  - एक नया प्रावधान शामिल किया जाए जिसमें उपबंध हो कि यदि पुलिस अभरिक्षा में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो यह माना जाएगा कि पुलिस ने उसे घायल किया है। यहाँ साक्ष्य का भार प्राधिकारी पर होगा।
  - पुलिस अभरिक्षा में किसी व्यक्ति को शारीरिक आघात पहुँचाने के लिये पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चलाने से संबंधित एक नया प्रावधान शामिल किया जाए। न्यायालय यह मानते हुए सुनवाई करेगा कि आघात अधिकारी द्वारा पहुँचाया गया है। न्यायालय यह मानने से पहले नमिनलखिति परदृश्यों पर विचार करेगा:
    - अभरिक्षा की अवधि
    - आघात के बारे में पीड़ित द्वारा दिये गए बयान
    - किसी चिकित्सक द्वारा जाँच
    - मजसिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया कोई भी बयान।
- **मलमिथ समिति 2003 की अनुशांसाएँ:** समिति ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिये इसके विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए अनुशांसाएँ की। कुछ प्रमुख अनुशांसाएँ इस प्रकार थीं:
  - छोटे-मोटे अपराधों के लिये 'सामाजिक कल्याण अपराध' (social welfare offences) नामक अपराधों की एक नई श्रेणी शुरू की जाए, जिनसे जुरमाना लगाकर या सामुदायिक सेवा कराने के रूप में नपिता जा सकता है।
  - वाद-विवाद या एडवर्सरियल प्रणाली (adversarial system) को एक 'मशिरति प्रणाली' से प्रतिस्थापित किया जाए जिसमें जाँच-पड़ताल या इन्क्वीसीटोरियल प्रणाली (inquisitorial system) के कुछ तत्व शामिल हों, जैसे कि न्यायाधीशों को साक्ष्य एकत्र करने और साक्ष्यों की जाँच करने में सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देना।
  - दोषसदिधि के लिये आवश्यक साक्ष्य के मानक को 'उचित संदेह से परे' ('beyond reasonable doubt) से घटाकर 'स्पष्ट एवं ठोस साक्ष्य' (clear and convincing evidence) की ओर ले जाना।
  - वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में ग्राह्य बनाना।

## नषिकर्ष:

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा एवं ग्राह्यता में स्पष्टता लेकर आता है, जहाँ विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के

सुरक्षा उपयोग के लिये विशेषज्ञ प्रमाणीकरण एवं 'हैश एल्गोरिदम' के महत्त्व पर बल दिया गया है। हालाँकि, इससे साइबर प्रयोगशालाओं के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि उनके कार्यभार में व्यापक वृद्धि होगी।

प्रवर्तन एजेंसियों के लिये एन्क्रिप्शन वधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कानूनों के प्रभावी होने से पहले आवश्यक बुनियादी ढाँचे को सुनिश्चित करना भी महत्त्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, ये बदलाव डिजिटल युग में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिये भारत में आपराधिक कानूनों को आधुनिक बनाने की प्रतियोगिता को परिलक्षित करते हैं।

**अभ्यास प्रश्न:** भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली, न्याय प्रदान करने में कसि प्रकार नष्पक्षता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करती है? हाल के सुधारों एवं चुनौतियों के संदर्भ में चर्चा कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न.** हम देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिसा के मामलों में वृद्धि देख रहे हैं। इसके खिलाफ मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बावजूद ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस खतरे से निपटने के लिये कुछ अभिनव उपाय सुझाइये। (2014)

**प्रश्न.** भीड़ हिसा भारत में एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए, ऐसी हिसा के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिये। (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/implementing-bharatiya-sakshya-adhinyam>

